

Name :

Roll No. :

नवीन पाठ्यक्रम / New Syllabus

कुल प्रश्नों की संख्या : 24]

Total No. of Questions : 24]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 7

[Total No. of Printed Pages : 7

K-202303-B

विषय : अर्थशास्त्र

Subject : Economics

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

[पूर्णांक : 80

[Maximum Marks : 80

निर्देश : (i) सभी प्रश्नों को हल कीजिए।

Instructions : All questions are compulsory.

(ii) प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक अतिलघुउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आबंटित है।
Question Nos. 1 to 8 are very short answer type questions. Each question carries 1 mark.

(iii) प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आबंटित हैं।
(उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 50 शब्द है)

Question Nos. 9 to 12 are short answer type questions. Each question carries 3 marks. (Maximum word-limit of answer is 50 words)

(iv) प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है।
प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आबंटित हैं। (उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 75 शब्द है)

Question Nos. 13 to 18 are long answer type questions. Each question has internal choice. Each question carries 4 marks. (Maximum word-limit of answer is 75 words)

(v) प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है।
प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आबंटित हैं। (उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 250 शब्द है)

Question Nos. 19 to 24 are long answer type questions. Each question has internal choice. Each question carries 6 marks. (Maximum word-limit of answer is 250 words)

- प्रश्न-1 'गोसेन' का प्रथम नियम कौन-सा है ? [1]
Which is the first law of 'Gossen'?
- प्रश्न-2 दूध का बाजार किस बाजार का उदाहरण है ? [1]
Which type of market is milk market?
- प्रश्न-3 विधिग्राह्य मुद्रा क्या है ? [1]
What is legal tender money?
- प्रश्न-4 भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है ? [1]
Where is the head office of the Reserve Bank of India?
- प्रश्न-5 अप्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण दीजिए। [½+ ½ =1]
Give two examples of indirect tax.
- प्रश्न-6 असंतुलित बजट किसे कहते हैं ? [1]
What is unbalanced budget?
- प्रश्न-7 भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है ? [1]
What is the meaning of balance of payments?
- प्रश्न-8 वायदा विनिमय दर किसे कहते हैं ? [1]
What is called forward exchange rate?
- प्रश्न-9 औसत उत्पादन से आशय क्या है ? इसका सूत्र लिखिए। [2+1=3]
What is meant by average production? Write its formula.
- प्रश्न-10 द्वयाधिकार की तीन विशेषताएँ लिखिए। [1+1+1=3]
Write three characteristics of duopoly.
- प्रश्न-11 समग्र पूर्ति किसे कहते हैं ? [3]
What is aggregate supply?
- प्रश्न-12 प्रभावपूर्ण माँग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। [3]
Explain the concept of effective demand.

- प्रश्न-13 किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय, समस्त कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है ? व्याख्या कीजिए। [4]

Explain why all the last expenditure in an economy is equal to the total factor payment.

अथवा

OR

किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की कुछ सीमाओं को लिखिए।

Write some limits of GDP as the co-ordinate of the welfare of a country.

- प्रश्न-14 भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा क्या है ? [4]

What is the alternative definition of currency supply in India?

अथवा

OR

व्यापारिक बैंकों के आधुनिक कार्य लिखिए (कोई चार)।

[1+1+1+1=4]

Write the modern work of Commercial Banks (any four).

- प्रश्न-15 बजट की विशेषताओं को लिखिए (कोई चार)।

[1+1+1+1=4]

Write the features of the budget (any four).

अथवा

OR

सरकारी बजट की आवश्यकता क्यों होती है (कोई चार) ?

Why government budget is required (any four)?

- प्रश्न-16 भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के उपाय लिखिए (कोई चार)।

[1+1+1+1=4]

Write measures to correct the imbalance in the balance of payments (any four).

अथवा

OR

स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क दीजिए (कोई चार)।

Argue in favour of stable exchange rate (any four).

- प्रश्न-17 व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। [2+2=4]
 Explain the mutual dependence of micro- and macro-economics.

अथवा

OR

वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अन्तर स्पष्ट कीजिए (कोई चार)। [1+1+1+1=4]

Explain the difference between real economics and ideal economics (any four).

- प्रश्न-18 औसत स्थिर लागत वक्र कैसा दिखता है ? यह ऐसा क्यों दिखता है ? [2+2=4]
 How does the average fixed cost curve look like? Why does it look like this?

अथवा

OR

दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं ? [4]

How do long marginal cost and average cost curves look like?

- प्रश्न-19 पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए (कोई छः)। [6]
 Write the elements affecting supply (any six).

अथवा

OR

पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है ? इसे कैसे मापते हैं ? [2+4=6]

What does elasticity of supply mean? How is it measured?

- प्रश्न-20 तटस्थता वक्र की सचित्र व्याख्या कीजिए। [6]
 Explain the indifference curve with diagram.

अथवा

OR

यदि उपभोक्ता की आय 20 रु. से बढ़कर 40 रु. हो जाती है, किन्तु कीमत अपरिवर्तित रहती है, तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है ?

If the income of the consumer increases from Rs. 20 to Rs. 40 but the price remains unchanged, then what changes are there in the budget line?

प्रश्न-21 माँग को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए (कोई छः)।

[6]

Explain the elements affecting demand (any six).

अथवा

OR

माँग के नियम लागू होने के कारणों की व्याख्या कीजिए (कोई छः)।

Explain the reasons why the rules of demand applied (any six).

प्रश्न-22 कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएँ लिखिए (कोई छः)।

[6]

Write critiques of Keynes's employment theory (any six).

अथवा

OR

अत्यधिक माँग के कारण लिखिए (कोई छः)।

Write the causes of excessive demand (any six).

प्रश्न-23 निम्नांकित आँकड़ों से वैयक्तिक आय और वैयक्तिक प्रयोज्य आय की गणना कीजिए :

[3+3=6]

मर्दे	रुपये (करोड़ में)
(i) कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद	— 8,000
(ii) विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय	— 200
(iii) अवितरित लाभ	— 1,000
(iv) निगम कर	— 500
(v) परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज	— 1,500
(vi) परिवारों द्वारा भुगतान किया जाता ब्याज	— 1,200
(vii) अंतरण आय	— 300
(viii) वैयक्तिक कर	— 500

Based on the following information, calculate Personal Income and Disposable Income :

Items	Rs. (in Crore)
(i) Net domestic product on factor cost	— 8,000
(ii) External secured net factor income	— 200
(iii) Undistributed profit	— 1,000
(iv) Corporation tax	— 500
(v) Interest received by families	— 1,500
(vi) Interest paid by families	— 1,200
(vii) Transfer income	— 300
(viii) Personal tax	— 500

अथवा

OR

निम्नांकित आँकड़ों से व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए :

[6]

घटें	रुपये (करोड़ में)
(i) वेतन व मजदूरी	— 4,000
(ii) किराया	— 700
(iii) लाभ	— 1,300
(iv) ब्याज	— 500
(v) उपभोग व्यय	— 4,000
(vi) सकल घरेलू विनियोग	— 1,500
(vii) शुद्ध विदेशी विनियोग	— 1,000

Based on the following information, calculate National Income by expenditure method :

Items	Rs. (in Crore)
(i) Salaries and wages	4,000
(ii) Rent	700
(iii) Profit	1,300
(iv) Interest	500
(v) Consumption expenditure	4,000
(vi) Gross domestic investment	1,500
(vii) Net foreign investment	1,000

प्रश्न-24 क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है—

- (अ) संतुलन कीमत से अधिक;
(ब) संतुलन कीमत से कम?

[3+3=6]

What happens when the prevailing price in the market is—

- (a) greater than equilibrium price;
(b) less than equilibrium price?

अथवा

OR

सामान्य मूल्य एवं बाजार मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए (कोई छः)।

[6]

Explain the difference between normal price and market price (any six).

.....